FINANCIAL EXPRESS

RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED CIN No:- L74899DL1984PLC019097

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085 Ph: 91-11-46800600, 46800700; Fax No: 91-11-46800692 E-mail: rfi@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE Notice is hereby given that the under mentioned share certificates pertaining to shares of the Company have been reported lost and request(s) for issue of

| FOLIO NO. | NAME OF HOLDER | CERT. NO(S). | DISTINCTIVE NOS. | NO. OF SHARES | OF SHARES (in ₹) |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|
| RNE0001032 | ARUNA MEHTA | 100206 | 220721-224720 | 4000 | 1.00 |
| Any porton l | novina any alaim L | abiaction in | rooppet of the abo | WO FORUM | note chauld |

duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company.

Any person having any claim / objection in respect of the above requests should lodge such claim / objection with Kfin Technologies Private Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent at its office situated at Karvy Selenium Tower B. Plot number 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Gachibowli, Hyderabad - 500032 or with the Company at its registered office or corporate office at Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector- 3, Rohini, Delhi - 110 085 within 15 days of the publication of this notice, failing which the Company will consider to give effect to the above requests.

Vikas Kumar Tak

For Relaxo Footwears Limited

Place: Delhi Date: September 1, 2020 Company Secretary

Regd. Off.: 103, Palco House 2162/T-10, Main Patel Road New Delhi 110008 E-mail id: csvirtualeducation@gmail.com, Website: www.virtualeducation.in CIN: L67120DL1993PLC052256, Ph: 011-25702148

VIRTUAL GLOBAL EDUCATION LIMITED

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020 (Amount in Lakhs Except EPS)

| | | Quarter Ended | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| PARTICULARS | 30-Jun-20 Un-Audited | 31-Mar-20 Audited | 30-Jun-19 Un-Audited | 31-Mar-20 Audited |
| Total Income from operations | 36.62 | 81.58 | 119.45 | 442.71 |
| Net Profit/ (Loss) Before Exceptional and Extraordinary Items and Tax | 7.77 | 8.02 | 11.36 | 36.93 |
| Net Profit/ (Loss) after taxes, minority interest and share of profit/(loss) of associates | 7.77 | 8.02 | 11.36 | 23.66 |
| Total Comprehensive Income for the period | 7.77 | 8.02 | 11.36 | 23.66 |
| Paid-up equity share (face value ₹ 1/- each) | 4,236.64 | 4,236.64 | 4,236.64 | 4,236.64 |
| Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year | | | • | 1. |
| Earnings Per Share (of ₹1/- each) (not annualised) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 |
| A) Basic | 1 1 | | | |
| B) Diluted | | | | |
| Natari | <u> </u> | | 100 | |

. The above Un-Audited Financial Results werereviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on Monday, August 31, 2020. The limited review report of the Statutory Auditorsis being filled with the Stock exchange.

The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 along with the Audit report is available on the website of the StockExchange i.e. www.bseindia.com and of the Company i.e. www.virtualeducation.in For Virtual Global Education Limited

Neeraj Kaushik

CESC VENTURES LIMITED

(formerly known as RP-SG Business

Process Services Limited)

Registered Office: CESC House

Chowringhee Square, Kolkata - 700 001

Corporate Identity Number:

L74999WB2017PLC219318

PH: 033-22256040

E-mail: cescventures@rpsg.in

Website: www.cescventures.com

NOTICE

It is hereby notified that the Unaudited

Financial Results of the Company

for the quarter ended 30 June, 2020

will be taken on record by the Board

of Directors at its meeting to be held

This Notice may be accessed on

the Company's website at

https://www.cescventures.com and

may also be accessed on the websites

of the Stock Exchanges at

https://www.nseindia.com.

https://www.bseindia.com and

1 September, 2020 Company Secretary

For CESC Ventures Limited

Sudip Kurnar Ghosh

on Wednesday, 9 September, 2020.

Sir Sarge Comba

(Director) DIN: 02462310

CESC

GUJARAT GAS LIMITED

Registered Office: Gujarat Gas CNG Station, Sector 5/C, Gandhinagar - 382006, Gujarat Tel: +91-79-26462980 Fax: + 91-79-26466249 Website: www.gujaratgas.com

E-mail Id: Investors@GUJARATGAS.com

CIN: L40200GJ2012SGC069118



NOTICE OF THE 8th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Place: New Delhi

Date: 31.08.2020

Eighth Annual General Meeting of the Company through VC / OAVM:-

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 12:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular dated 8th April, 2020, dated 13" April, 2020 and 5" May, 2020, issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and SEBI Circular dated 12" May, 2020 (SEBI Circular) to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the Meeting and the Explanatory Statement attached thereto, together with the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) of the Company for the Financial Year ended 31" March, 2020, and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon, have been sent on 1" September, 2020 through Electronic Mode only to the Members of the Company whose E-mail addresses are registered with the Company's R&TA/Depository Participant(s). The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at www.gujaratgas.com and websites of the Stock Exchanges where

Shares of the Company are listed i.e. The BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Further, the AGM Notice is also available on the website of the Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

All the documents referred to in the Notice of the AGM and Explanatory Statement are available for inspection through electronic mode on the basis of prior request. Members seeking to inspect such documents can send the E-mail to Investors@GUJARATGAS.com.

Instruction for Remote E-voting and E-voting during AGM:-

In compliance with the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (E -voting). The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("Remote E-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited or "CDSL" for providing e-voting facilities.

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be available at the AGM by electronic means (E - voting) Members attending the meeting who have not cast their vote(s) by Remote E-voting can cast their vote at AGM.

The manner of Remote E – voting/E -voting for Shareholders holding shares in dematerialised mode, physical mode and for shareholders who have not registered their E-mail addresses is provided in detail in Notice of the AGM. Members are requested to refer the detailed procedure and E-voting instructions provided in the "Notes" section of the Notice convening the 8" Annual General Meeting for casting their votes electronically on the Resolutions set forth in the Notice.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- Date and time of commencement of E-voting: from 09.00 A.M. (IST) on Monday, 21" September, 2020.
- Date and time of end of E-voting: 05.00 P.M. (IST) on Wednesday, 23rd September, 2020.
- The Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The Cut-off date for entitlement for E-voting is 17th September, 2020.
- Aperson, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 17" September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting or E-voting during the AGM.
- Any person who becomes Members of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding Shares as on the cut-off date i.e. 17" September, 2020, may obtain the USER ID and Password by following e-voting instructions being part of Notice which is placed in E-voting section of CDSL Portal i.e. www.evotingindia.com as well as seek further guidance by putting email request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. If the Member is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing USER ID and Password for casting the vote through remote evoting.
- The Members who have cast their vote by Remote E-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- The facility for E-voting during the AGM shall also be made available at the Meeting and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by Remote E-voting on all or any of the resolutions set out in the Notice, can cast their vote at the Meeting.
- The Notice of 8th Annual General Meeting will also be available on the Company's website www.gujaratgas.com and on the E- voting section of CDSL Portal - www.evotingindia.com.
- For electronic voting instructions, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manual available at www.evotingindia.com under help section or write an E-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any queries/grievances, in relation to E-voting, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058738 or 022-23058543 or 022-23058542
- Registration / updation of E-mail IDs and Bank Mandates:-Manner of registering/updating E-mail IDs
- The Members who have not registered their E-mail addresses with the Company/R&TA/Depository Participants can get the same registered by sending following documents by E-mail at einward.ris@kfintech.com or by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz. KFin Technologies Private Limited ("KFintech")
- Shareholders holding Shares in Physical mode: a. A signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
- Self attested scanned copy of the PAN Card; and
- Self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Passport) in support of the address. Shareholders holding Shares in Demat mode:
- a. Name and Demat account details (CDSL 16 digit beneficiary ID or NSDL 16 digit DP ID + Client ID):
- Client Master or copy of Consolidated Account statement;
- Self attested scanned copy of the PAN Card; and d. Self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Passport) in support of the address of the Member as
- registered with the Company. Shareholders holding Shares in Demat mode are also requested to update their E-mail addresses with their Depository Participants.

through Electronic Clearing Service or any other means ("Electronic Bank Mandate"), can register their Electronic Bank Mandate to receive Dividends

Manner of registering/updating Bank Mandates: The Members holding Shares in Physical Form who have not updated their mandate for receiving the Dividends directly in their Bank accounts

- directly into their Bank account electronically, by sending following details/documents by E-mail at einward.ris@kfintech.com or by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz., KFin Technologies Private Limited ("KFintech"):
- Name and Branch of Bank in which Dividend is to be received and Bank Account type; Bank Account Number allotted by your Bank after implementation of Core Banking Solutions;
- c. 11 digit IFSC Code; and
- d. Self attested scanned copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case Shares are held jointly. The Members holding Shares in Demat Form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their Depository Participant.

Record Date for Dividend and manner of payment of Dividend, if declared at the AGM:

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Thursday, 10" September, 2020 as the "Record Date" for determining entitlement of Dividend of Rs. 1.25 (i.e. 62.50%) per Share for the Financial Year ended on 31st March, 2020.

The Dividend, if declared at the ensuing Annual General Meeting, shall be paid, on or before, 23" October, 2020 to the Members whose name appears on the Company's Register of Members as on the Record Date i.e. Thursday, 10th September, 2020 as Beneficial owners as at the close of business hours on 10th September, 2020, as per the list to be furnished by the Depositories in respect of the shares held in electronic form, and for physical shareholders after giving effect to all valid share transfer in physical form received as at the close of business hours on Thursday, 10th September, 2020.

Manner of Payment of Dividend, if declared at the AGM:

The Dividend, if approved by the Shareholders at the 8th AGM, will be paid through electronic mode to the Shareholders who have updated their bank details. Dividend warrants/demand drafts will be dispatched to the registered address of the Shareholders who have not updated their bank details. only after normalisation of postal services.

To avoid delay in receiving Dividend and to receive the Dividend directly into their bank account on the payout date, Shareholders are requested to update their Bank details by following the procedure set out at para 3 above.

TDS on Dividend

financialexp.epap.in

The Company vide its separate email communication dated 21" August, 2020 had informed the Members that the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividends paid or distributed by a Company after 1" April, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of payment of dividend. The Company has informed detailed procedure for TDS on Dividend in the aforesaid communication. Further, this process & various formats are available at Company's website viz. https://www.gujaratgas.com/investors/tds-on-dividend/. We request you to provide these details and documents as mentioned in the communication before Saturday, 12th September, 2020. No communication on the Tax determination / deduction shall be entertained post Saturday. 12" September, 2020. For, Gujarat Gas Limited

Place: Ahmedabad Date: 1st September, 2020

Sandeep Dave Company Secretary

肥FLEX FOODS LIMITED

Regd. Off. ; Lai Tapper Industrial Area, P.O. Resham Main, Haridwar Road, Dehradun (Utt.) Ph.: 0135-2499234, Fax: 0135-2499235, Website: www.fexfoodsitd.com, Email: secretarial@uflextid.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, September 25, 2020 at 11:30 A.M. IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 98, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ["MCA"] and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / CAVM.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the financial statements for the Financial Year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on August 31, 2020 to the Members of the Company whose small addresses are registered with the Company / Depository Participantis). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.flexfpodshtd.com and on the website of the Stock Exchange, i.e., The BSE Limited at www.bseindia.com

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM:

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide the e-voting facility to the Shareholders. Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of CDSL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members altending

the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. Central Depository Services Limited, "CDSL") will be providing facility for voting through remote e-Voting, for participation in the 30" AGM through VC/QAVM Facility ande-Voting during the 30" AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from September 18, 2020 to September 25, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining entitlement of the Shareholders to the Dividend for the year 2019-20.

All members are informed that

(a) the business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;

the date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, September 22, 2020, \$:00 A.M.

- the date and time of end of remote e-voting: Thursday, September 24, 2020, 5:00 P.M.
- the out-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM: Friday, September 18, 2020. The
- voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding as on the cut-off date any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of
- AGM and hold shares as of the cut-off date i.e. September 18, 2929, can follow the process for generating the Login ID and Password as provided in the Notice of the AGM, If such a person is already, registered with COSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote;

ii) the members may note -

- remote e-voting shall not be allowed beyond September 24, 2020 5:00 PM.
- The facility for voting shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast. their vote by remote le-voting is half be able to exercise their right at the meeting.
- (iii) a member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and (iv) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the
- depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting:
- (g) well-ebsite address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: www.fextoodstd.com and www.evotingindia.com;
- (h) name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances, connected with facility for voting by electronic means:
- Shri Rajesh Dheer, (Company Secretary), Email Id: secretarial@uflextd.com, Telephone No.: 011-26440917, 011-26440925, Address: 305, 3rd Floor, Shanot Corner, Pamposh Endave, Greater Kallash - I. New Delhi - 110 048

By order of Board For FLEX FOODS LIMITED Raiesh Dheer Company Secretary

Place: New Delhi Date : 01.09.2020

FCS No.: 3060 A-64, Ordnance Apartments, Block-H, Vikaspuri, New Delhi-110018



CIN No.: L17229UP1994PLC017199 Registered & Corporate Office: Kamla Tower, Kanpur-208 001 (U.P.)

Ph.: +91 512 2371478 to 81; Fax: +91 512 2399854/ 2332665; website: www.jkcement.com; e-mail: shambhu.singh@jkcement.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS



(₹ in lacs)

| | | CONSOCIDATED | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| SI. No. | Particulars | Three Months Ended 30.06.2020 (Unaudited) | Three Months Ended (Refer Note 8) 31.03.2020 (Audited) | Three Months Ended 30.06.2019 (Unaudited) | Period Ended (Refer Note 6 31.03.2020 (Audited) |
| 1. | Total Income | 1,02,497.70 | 1,57,294.65 | 1,41,127.08 | 5,88,696.30 |
| 2. | Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax | 21,234.17 | 35,705.30 | 31,433.35 | 1,23,185.44 |
| 3. | Net Profit for the Period before Tax (before Exceptional and Extraordinary Items) | 9,254.18 | 24,071.54 | 19,648.94 | 73,444.69 |
| 4. | Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items) | 9,254.18 | 24,071.54 | 19,648.94 | 73,444.69 |
| 5. | Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items) | 4,994.64 | 16,082.49 | 13,230.54 | 48,339.31 |
| 6. | Total Comprehensive Income for the Period | 5,685.06 | 17,177.67 | 13,412.19 | 50,053.60 |
| 7. | Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share) | 7,726.83 | 7,726.83 | 7,726.83 | 7,726.83 |
| 8. (i) (ii) | Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹10/- each) (Not Annualized Except Period / Year Ended) Before Extraordinary Items (in ₹) After Extraordinary Items (in ₹) | 6.46 6.46 | 20.81 20.81 | 17.12 17.12 | 62.56 62.56 |

- 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended consolidated and standalone financial results are available on the Stock Exchange websites:-www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.ikcement.com.
- 2. Key Standalone Financial Information:

| Sl. No. | | STANDALONE | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| | Particulars | Three Months Ended 30.06.2020 (Unaudited) | Three Months Ended (Refer Note 5) 31.03.2020 (Audited) | Three Months Ended 30.06.2019 (Unaudited) | Year Ended 31.03.2020 (Audited) |
| 1. | Total Income | 98,529.97 | 1,50,447.24 | 1,34,518.14 | 5,54,965.26 |
| 2. | Net Profit before Interest, Depreciation, Exceptional Items and Tax | 21,648.24 | 34,735.00 | 31,098.29 | 1,20,113.69 |
| 3. | Net Profit for the Period before Tax (before Exceptional and Extraordinary Items) | 12,042.69 | 25,849.49 | 21,788.14 | 83,016.21 |
| 4. | Net Profit for the Period before Tax (after Exceptional and Extraordinary Items) | 12,042.69 | 8,034.49 | 21,788.14 | 65,201.21 |
| 5. | Net Profit for the Period after Tax (after Exceptional and Extraordinary Items) | 7,768.36 | 22.70 | 15,380.44 | 40,037.59 |
| 6. | Total Comprehensive Income for the Period | 7,736.44 | (169.93) | 15,402.37 | 39,910.74 |
| 7. | Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share) | 7,726.83 | 7,726.83 | 7,726.83 | 7,726.83 |
| 8. (i) (ii) | Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualized) Before Extraordinary Items (in ₹) After Extraordinary Items (in ₹) | 10.05 10.05 | 0.03 0.03 | 19.91 19.91 | 51.82 51.82 |

3. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 and relevant amendment thereafter. The said financial results of the Parent Company and its subsidiaries [together referred as the "Group"] have been prepared in accordance with Ind AS 110 - Consolidated financial statements.

For and on Behalf of the Board of Directors

Sushila Devi Singhania

Chairperson

DIN No. 00142549

JK STPER JK S[□]PER JK CEMENT. STRONG STRONG White Max X CONCRETE SPECIAL Weather Shield





For Kind Attention of Shareholders: As a part of Green Initiative of the Government, all the Shareholders are requested to get their email addresses registered with the Company for receiving Annual Report, etc. on email.



JK SŪPER

JK CEMENT.

Place: Kanpur

Date: 31st August, 2020

New Delhi

Primax)

टावर, ब्लॉक-जे. रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

We understand your world सरफसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

आवासीय भू तल का फ्लैट नं. 159ए, जिसका सुपर/कवर्ड एरिया 56.02 व

मीटर तथा आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 66.90 वर्ग मीटर है, ब्लॉक 1, सेक्टर

उप-धारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी

22, नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश

तिथि: 2.9.2020

स्थानः नई दिल्ली

रतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों)/ मार्टगैजर(रों) ने बैंक से उनके द्वा

प्राप्त ऋण सुविधा के मुलधन तथा ब्याज को वापस लौटाने में चुक की है तथा उनकी ऋण खाताओं को गैर प्रचाल परिसम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण

तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात

पते पर सूचनाएं जारी की गई लेकिन वह उन्हें प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई और इसीलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचन

प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाए राशि का भुगतान करें, अन्यथा सरफैसी अधिनियम की धारा 13 व

मदरसनसमि इन्फोटेक एंड डिजायन्स लिमिटेड

CIN: U67120DL1985PLC020695

पंजी. कार्यालय: 2रा तल, एफ-7, ब्लॉक- बी-1,

मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मथुरा रोड, दिल्ली- 110044

Tel: +91-120-4365555, E-mail: info@mind-infotech.com

वार्षिक साधारण सभा की सुचना

i) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा सर्क्युलर नं

17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित साधारण सर्क्यूलर नं. 20/2020 (सामृहिक रूप

से लागु होने वाले सर्क्युलर) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम), उसके

अंतर्गत निर्मित नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी की 35वीं वार्षिक

साधारण सभा (एजीएम) मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. में एजीएम की सुचना

में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिए लागु होने वाले सर्क्युलर्स के साथ पठित

अधिनियम के लाग होने वाले प्रावधानों के अनसार विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) द्वारा आयोजित

ii) लागू होने वाले सर्क्युलर्स के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यो

को ईमेल द्वारा भेजी जायेगी जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास

पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। सदस्यगण केवल वीसी द्वार

क) भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने अपने ईमेल पते कम्पनी मे पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि फोलियो नम्बर के विवरण के साथ पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए admin@mcsragistrars.com पर एमसीएस शेयर

ख) डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि संबंधि

ग) 35वीं एजीएम सूचना उचित समय पर उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर लगा होने वाले कानूनी

iii) इलेक्टॉनिक रूप से कम्पनी के सभी सचना (वार्षिक रिपोर्ट सहित) प्राप्त करने के लिए

ट्रांस्फर एजेन्ट लिमिटेड को लिखित अनुरोध भेजकर उसे पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

वार्षिक साधारण सभा में भाग ले सकते हैं।

के अनुसार शेयरधारकों को भेजी जाएगी।

तिथि: 2 सितम्बर. 2020

एचडीएफसी बैंक लि. के लिए

मदरसनसूमि इन्फोटेक एंड डिजायन्स

लिमिटेड के लिये

हस्ता./

पूजा मेहरा

कम्पनी सचिव

FCS-5088

पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल

दो दर्जन से ज्यादा परिवार गांव से पलायन की तैयारी में

मेरट. २ सितंबर (जनसत्ता)।

मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश प्रवीण राठी के परिवार समेत करीब दो दर्जन से अधिक परिवारों ने बुधवार को गांव से पलायन करने को लेकर मकानों को बेचने के पोस्टर चस्पा हैं। इसी के साथ ग्राम प्रधान के पति व मुठभेड़ में घायल बदमाश के पिता ने इस मामले में मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने दोघट पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कार्रवाई की भी मांग की है। उधर एएसपी मनीश कुमार मिश्र का कहना है कि गांव के लोग पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की हरकते कर रहे हैं जिससे गांव के दूसरे अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने से बचे।

टीकरी-गांगनौली चौराहे के पास रविवार की शाम थाना दोघट पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक लाख के इनामी रहे बदमाश प्रमोद गांगनौली का भाई प्रवीण पैर में गोली लगने से घायल हो गया था जबकि उसका एक साथी मौका पाकर फरार हो गया था। थाना दोघट प्रभारी हेमेंद्र बालियान के मृताबिक चेकिंग के दौरान प्रवीण अपने एक साथी के साथ बाइक पर आता दिखाई दिया।

पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो प्रवीण ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने प्रवीण के कब्जे से एक बंदक, जिंदा कारतुस

के साथ ही एक बाइक बरामद की थी। गोली लगने से घायल प्रवीण को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था।

- HDFC BANK

सीओ आलोक सिंह ने बताया कि प्रवीण गांगनौली पर थाना दोघट में हत्या व लूट के पांच मुकदमें दर्ज हैं। प्रवीण एक लाख के इनामी रहे प्रमोद गांगनौली का भाई है। प्रमोद की तीन साल पहले लुंब के जंगल में गैंगवार के चलते हत्या हो गई थी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में घायल प्रवीण के साथी की तलाश की जा रही है। जल्द की उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन दिनों बागपत में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी चल रही है।

ग्राम प्रधान के पति सतबीर राठी ने कहा है कि जब प्रधान के बेटे खिलाफ ही पुलिस इस तरह की कार्रवाई करेगी तो हम किसी और की क्या मदद कर पाएंगे। इसलिए मेरे परिवार समेत करीब दो दर्जन से अधिक परिवारों ने गांव से पलायन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि पुलिस चुनाव को देखते हुए एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हमारे पास मौके के सीसीटीवी के फुटेज मौजूद हैं। जिसमें पुलिस किस तरह से प्रवीण को अपना निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मानव अधिकार आयोग से शिकायत कर जांच की मांग की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री से भी मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है।

बरेली में तेजाब पीने से

मायकेवालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

बरेली, 2 सितंबर (जनसत्ता)।

थाना इज्जतनगर क्षेत्र में महिला की तेजाब पीने से मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। थाना पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मठलक्ष्मीपुर के रहने वाले अली अहमद की पत्नी सीमा की तेजाब पीने से तबियत बिगड़ने पर पित और ससुरालजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे मायकेवालों ने पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि तेजाब पिलाकर उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने बताया कि पिछले साल आठ अगस्त को सीमा और अली अहमद का विवाह हुआ था।

विवाह के बाद से ही ससुराल में सीमा का देहज के लिए उत्पीड़न किया जा रहा था। उससे अक्सर मारपीट भी की जाती थी।

उन्होंने यह भी बताया कि सीमा की मौत के बाद उसका पति और ससुरालजन अस्पताल से फरार हो गए ।

सड़क हादसे में युवक की मौत : आंवला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में जख्मी हुए कुंवरपाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शाहबाद निवासी कुंवरपाल दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में जख्मी होने के कारण उसे इलाज के लिए अस्पताल पहंचाया गया था।

ढाबे पर देह व्यापार, नौ लोग गिरफ्तार

वृंदावन, २ सितंबर (जनसत्ता)।

कोसीकला क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बठैन गेट स्थित जगन्नाथ पैलेस पर पुलिस ने छापेमारी करके देह व्यापार के आरोप में चार युवक और पांच युवतियों को ढाबे से गिरफ्तार किया है।

और युवतियां युवक हरियाणा और यूपी के रहने वाले हैं। पकडी गई युवतियां हरियाणा के होडल, और यूपी के हाथरस व आगरा जनपदों की रहने वाली हैं। जबकि पकड़े गए युवकों में दो छाता, दो कोसीकला व एक होडल का रहने वाला है।

इस दौरान ढाबा संचालक भागने में सफल रहा। यहां पिछले कई महीने से देह व्यापार चल रहा था।

पुलिस ने ढाबे से आपत्तिजनक वस्तुएं और शराब की बोतलें भी बरामद की हैं। क्षेत्राधिकारी छाता जगदीश कालीरमण ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ढाबे पर अवैध गतिविधियों के संचालित होने की सूचना मिली थी। इसके बाद ढाबे पर छापा मारा गया। चार युवक और पांच युवतियों को ढाबे से गिरफ्तार किया है।

हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड **पंजी, कार्या**,: 20, मौर्य कॉम्प्लेक्स, बी–28 सुमाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 कारपोरेट कार्या: होटल हॉवर्ड प्लाजा, क्तेहाबाद रोड, आगरा–282001 (उत्तर प्रदेश)

CIN: L74899DL1989PLC038622 win: 0562-4048600. win: 0562-4048666. इंमेलः info@howardhotelsltd.com,

cs@howardhotelsltd.com

सेबी (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमों, 2015 के विनियम 29 और 47 के अनुपालन में, एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को कॉर्पोरेट कार्यालय, आगरा में बुलाई जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ, 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार व

अनुमोदन करना है। जानकारी और अधिक विवरण कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.howardhotelshd.com और स्टॉक एक्सबेंज की वेक्साइट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध

कृते हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड विधिः 02 सितम्बर, 2020 हस्ता./-एन.एन. मित्तल (अध्यक्ष एवं प्रबंध निवेशक)

SHREE WORSTEX LIMITED

Regd. Office: 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Phone: 9315202833, Email ID: shreeworstex@gmail.com Website: www.shreeworstex.in, CIN: L17111DL1982PLC013790

NOTICE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the members of M/s Shree Worstex Limited will be held on Monday, 28th September, 2020, at 02:00 P.M. at. 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza. Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting")

The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i.e August 14, 2020, and completion of dispatched on dated September 02, 2020. Notice is available on the website of the Company

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company; www.shreeworstex.in and on the website

of NSDL www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting facility shall commence on Friday, 25th September, 2020 from 9:00 a.m. and end on Sunday 27th September, 2020 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed

beyond the aforesaid date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date (Record date), i.e., Monday, September 21, 2020 only shall be entitled to avail the facility

of remote e-voting /voting at the Meeting Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his

existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting. Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

REGISTRATION OF EMAIL ADDRESS: Members who have not yet registered their email addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to Skyline Financial Services Private Limited ('RTA') for members holding shares in physical form.

BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to section 91 of the Act and the Rules framed there under, the Registrar of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22.09.2020 to 28.09.2020 (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM. By the order of Board of Directors of

Place: New Delhi Date: 02.09.2020

For Shree Worstex Limited Pawan Kumar Mittal Director

विशेष प्रचालन विभाग, 5वां तल, प्लॉट नं. 1, अंसल क्लैंसिक HDFC BANK टावर, ब्लॉक-जे, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सुचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों)/ मार्टगैजर(रों) ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सविधा के मलधन तथा ब्याज को वापस लौटाने में चक की है तथा उनकी ऋण खाताओं को गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया हैं। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर सूचनाएं जारी की गई लेकिन वह उन्हें प्राप्त हुए बिना वापस लौट आई और इसीलिए उन्हें इस सार्वजनिक सुचना के माध्यम से सुचित किया जा रहा है:

ऋणधारक का नाम: 1. मै. ऑवर क. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 11/77, बेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

गारन्टरों का नाम: 2. श्रीमती सुधा गुप्ता, पत्नी श्री देवेन्द्र गुप्ता, ए-172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-। 10087, 3. श्री अनिल कुमार गोयल, पुत्र श्री सूरज भान गोयल, मकान सं. 41, 2रा तल, बेस्ट एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग बेस्ट, नई दिल्ली-110026, 4. श्री गुरमीते सिंह मथारू, पुत्र श्री पिआरा सिंह, डब्ल्यू-21, 2रा तल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-48, 5. सुश्री मणि गुप्ता, पुत्री श्री वीरेन्द्र, एस-63, निवेदित कुंज, आर.के. पुरम, सेक्टर-10, नई दिल्ली-22, 6. श्री पारस गुप्ता, पुत्र श्री देवेन्द्र गुप्ता, ए-172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-। 10087, 7. मै. एपी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 638, ऊपरी तल, इंडस्ट्रियल एरिया-बी, थापर मार्केट, लुधियाना-141003, साथ हीः 417, प्रथम तल, मेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, 8. प्रीसीडियम एजकेशन इंस्टीच्यशन प्राईवेट लिमिटेड, पंजी, कार्यालयः 11/77, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026, ९. में. स्कॉलरट्यूब एजुकेशन एंड लर्निंग सॉल्यूशन्स प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालयः 1509, 15वाँ तल, आर.जी. ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

चल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति का विवरण परिसम्पत्ति के स्वामी सभी वर्तमान एवं भविष्य के प्लांट एवं मशीनरी तथा चल परिसम्पत्तियों| मैं. ऑवर क. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास प्रथम समानुरूप प्रभार द्वारा हाइपोथेकेशन प्राईवेट लिमिटेड

चल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का विवरण हाई स्कूल साईट-1, ब्लॉक ई, मेकिल्ड गार्डन्स, सेक्टर-57, गुरुग्राम- मैं. ऑवर क. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट/ अन्य भूमि, पश्चिमः रोड, उत्तरः बीपीटीपी टावर, दक्षिणः अन्य

एनपीए की तिथि: 29 नव. 2019 सूचना की तिथि: 28 अगस्त, 2020 बकाया राशि (28 अगस्त 2020 को): रु. 68,22,05,004.83 (अड़सठ करोड़ बाईस लाख पांच हजार चार तथा

पैसे तिड़ासी मात्र) तथा 29 अगस्त, 2020 से अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज बकाया तथा देय है।) उपरोक्त ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारन्टरों/ मार्टगैजरों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचन 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाए राशि का भुगतान करें, अन्यथा सरफैसी अधिनियम की धारा एचडीएफसी बैंक लि. के लिए fl

फ्लैक्स फुड्स लिमिटेड

CIN: L15133UR1990PLC023970

पंजी. कार्यालयः लाल टप्पर इंडस्ट्रियल एरिया, पी.ओ. रेशम माजरी, हरिद्वार रोड, देहरादून (उत्तराखंड) फोन नं. 0135-2499234, फैक्स नं: 0135-2499235, वेबसाइटः www.flexfoodsltd.com, ई-मेलः secretarial@uflexltd.com

कंपनी के शेयरधारकों के ध्यान हेतु सूचना

एतदृहारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई. 2020 और सेबी (सामृहिक रूप से 'संबंधित परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और अन्य लागु परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 तथा कंपनी एक्ट, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों की अनुपालना में एजीएम को आमंत्रित करने वाली सुचना में निर्धारित व्यापार को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 को पूर्वाद्व 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए सक्षम होना होगा।

संबंधित परिपत्रों की अनुपालना में, एजीएम सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय सारांश के साथ बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर्स की रिपोर्ट और उससे जुड़े अपेक्षित अन्य दस्तावेजों को कंपनी के सदस्यों को 31 अगस्त, 2020 भेज दी गई है, जिनके ई-मेल कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। ऊपरकथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.flexfoodsltd.com और शेयर बाजार की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय-समय पर संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (आपत्तियों के सुचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के साथ पठित कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 108 के अनुसार, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक विधि ("ई-वोटिंग") हारा एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्ताव पर उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए इसके सदस्यों को सविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की सेवाओं को नियक्त किया है। सदस्य यहां नीचे वर्णित तिथियों को सीडीएसएल की इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के प्रयोग द्वारा रिमोटली अपने वोट डाल सकते हैं। ("रिमोट ई-वोटिंग")

इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा एजीएम के स्थान पर भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग हारा अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है वह एजीएम में अपने वोट का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) 30वीं एजीएम के दौरान वीसी/ओएवीएम सुविधा तथा ई-वोटिंग के माध्यम से 30वीं एजीएम में भाग लेने के लिए रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से बोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश के शेयरधारकों की हकदारी निर्धारित करने और एजीएम के उद्देश्य के लिए 18 सितंबर, 2020 के 25 सितंबर, 2020 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

- (क) एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यापार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा पुरा किया जा सकता है; (ख) रिमोट ई-वोटिंग के प्रारंभ होने की तिथि और समय मंगलवार, 22 सितंबर, 2020, सुबह 9.00 बजे।
- (ग) रिमोट ई-चोटिंग की समाप्ति की तारीख और समय वीरवार, 24 सितंबर, 2020, शाम 5.00 बजे।
- (च) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथिः शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 है। सदस्यों के मतदान के अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे;
- (इ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ की तारीख यानी 18 सितंबर, 2020 को शेयरधारक है, वह एजीएम की सुचना में प्रदान किए अनुसार लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साध पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है: च) सदस्य नोट कर सकते हैं -

(i) 24 सितंबर, 2020, शाम 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) मतदान के लिए सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, वे बैठक में अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

(iii) एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी सामान्य बैठक में भाग ले

- सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा (iv) एक व्यक्ति जिसका नाम केवल कट-ऑफ तारीख तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में या सदस्यों
- के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह वार्षिक सामान्य बैठक में ई-वोटिंग के साथ-साथ मतदान के लिए भी सुविधा प्राप्त (छ) कंपनी और उस एजेंसी का वेबसाइट का पता जहां बैठक की सुचना प्रदर्शित की गई है: www.flexfoodsitd.com और
- www.evotingindia.com: (ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के लिए सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता,
- ईमेल आईडी और फोन नंबर: श्री राजेश धीर, (कंपनी सचिव), ईमेल आईडी: secretarial@uflexltd.com, टेलीफोन नं.: 011-26440917, 011-26440925,

पताः 305, तीसरा तल, भनोट कार्नर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-।, नई दिल्ली-110048 बोर्ड के आदेशानुसार

कृते फ्लैक्स फुइस लिमिटेड,

स्थानः नई दिल्ली दिनांक: 01.09.2020

राजेश धीर, कंपनी सचिव, एफसीएस ने, 3060 ए-64, ओडिंनेंस अपार्टमेंट्स, ब्लॉक-एच, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

State Bank of India बक

ई-नीलामी बिक्री सूचना

स्ट्रैस्ड एस्टेट्स मैंनेजमेट शाखा —। 12वीं मंजिल, ज़वाहर व्यापार भवन, 1 टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली—110001 Tel: 011-23701157 Email: sbi.04109@sbi.co.in

"परिशिष्ट—IV—ए" (नियम 8(6) के प्रावधान देखें) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूतित ऋणदाता (स्टेटें बैंक ऑफ इंडिया) को प्रभारित / गिरवी नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को जिन पर

प्रतिभृतित ऋणदाता (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के प्राधिकृत ने नीचे वर्णित अनुसार प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है, को ऋणियाँ, गारंटरों और गिरवीकर्ताओं से प्रतिभृतित ऋणदाता को देय नीचे वर्णित अनुसार राशि क्रमशः नीचे वर्णित है। की वसूली के लिए 12.10.2020 को "ज ऋणी(यों), गांरटर(ओं) / निगमित गारंटर(ओं) (सीजी) का नाम, पते के साथ

| का वसूला के लिए 12.10.2020 की "जहां से जर | ी है'' , जो है जैसी है'' और ^{''}जहां कहीं है'' के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य नीचे वर्णि । | | राहर साश क्रमशः नाच वाणत ह । |
|---|---|---|--|
| ऋणी(यों), गांरटर(ओं) / निगमित गारंटर(ओं) (सीजी) का नाम, पते के साथ | नीलामी के अंतर्गत कवर प्रभारित प्रतिभूति का विवरण | आरक्षित मूल्य आरक्षित मूल्य की ईएमडी राशि 10 प्रतिशत वृद्धि राशि | भावी ब्याज, व्यय, लागतों व शुल्कों आदि के बिना मांग सूचना की तिथि तक कुल देय (रु.) |
| मैसर्स सोनी ट्रेडर्स, | 1) आवासीय संपत्ति पूरी निचला ग्राउंड फ्लोर टेरिस / छत अधिकारों के बिना, 14 / 66, सड़क नं. 66, पंजाबी बाग नई दिल्ली में स्थित, श्री पुरुषोत्तम लाल सोनी माप 1500 वर्ग फुट | Rs. 120.00 लाख | |
| 5/9, गुरुनानक कॉम्प्लैक्स, दुकान नं. 106, सरस्वती | | Rs. 12.00 लाख | ₹. 22,23,15,511.49 |
| मार्ग, डब्ल्यू ई.ए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 | | Rs.1.00 लाख | (रुपए बाईस करोड तेईस लाख पंद्रह हजार पांच सौ |
| श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री सुंदर पाल सिंह | 2) आवासीय संपत्ति पूरी दूसरी मंजिल टेरिस / छत अधिकारों के बिना, जे—127, विकासपुरी नई दिल्ली, श्रीमती शमा दुआ के नाम पर माप 321.36 वर्ग मीटर | Rs. 205.00 लाख | ग्यारह और पैसे उनचास |
| व्यक्तिगत गारंटर, गिरवीकर्ता जी—259ए, एच.आई.जी | | Rs. 20.05 लाख | केवल) 30.06.2020 तक |
| पलैट प्रताप विहार गाजियाबाद-201001 | | Rs.1.00 लाख | सभी आकरिमक, लागत, शुल्कों |
| दीपक मित्तल पुत्र श्री शिव कुमार मित्तल व्यक्तिगत गारंटर, गिरवीकर्ता निवासी–26 / 23, | 3) आवासीय संपत्ति 1 / 2 (हाफ) भाग, बियरिंग नं. XVI / 327 ब्लॉक—बीडी खसरा | Rs. 314.00 लाख | आदि के साथ क्रमश के साथ |
| शक्ति नगर मल्का गंज दिल्ली—110007 | नं. 222 / 35—36—39, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली माप लगभग 164 वर्ग यार्ड | Rs. 31.40 लाख | अनुबंध दर से उक्त राशि पर |
| श्रीमती शमा दुआ पत्नी श्री सुरिंदर पाल व्यक्तिगत गारंटर, गिरवीकर्ता निवासी जे—127, दूसरी मंजिल | (संपत्ति नं. 328 से जुड़ी राइट साइड में) पहली मंजिल, दूसरी मंजिल व तीसरी मंजिल के सहित, टेरिस / छत अधिकारों के साथ, श्री दीपक कुमार मित्तल के नाम पर माप 164 वर्ग यार्ड | Rs.1.00 लाख | भावी ब्याज सहित प्राधिकृत अधिकारी : |
| विकास पुरी, दिल्ली-110018 | 4) खाली प्लॉट नं. ई3—04 से ई3—09, खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 13.00 लाख | सुनील कुमार डुसेजा |
| श्री पुरुषाँत्तम लाल सोनी | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान) श्री परुर्वोत्तम सोनी के नाम पर भिम का क्षेत्र : 9250 वर्ग फट | Rs. 1.30 लाख | मो : 9990045341 |
| पार्टनर, गारंटर, गिरवीकर्ता, निवासी 4 / 14, डब्ल्यू, ई.ए. सरस्वती मार्ग, होटल क्रिस्ट | | Rs.0.20 लाख | |
| इन के पास, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 | 5) खाली प्लॉट नं. ई3—13 से ई3—18, खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान) श्री पुरुषोंत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 9250 वर्ग फुट | Rs. 13.00 लाख | |
| श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री पुरुर्वोत्तम लाल सोनी | | Rs. 1:30 लाख | |
| | | Rs.0.20 लाख | |
| पार्टनर,व्यक्तिगत गिरवीकर्ता, निवासी 4 / 14, डब्ल्यू ई.ए. सरस्वती मार्ग, होटल क्रिस्ट | 6) खाली प्लॉट नं. ई2—01 से ई2—08, खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 16.00 लाख | |
| इन के पास, करोल बाग, नई दिल्ली—110005 | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढूंगरगढ़ | Rs. 1.60 লাভ্য | |
| | श्री पुरुर्षोत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 12000वर्ग फुट | Rs.0.20 लाख | |
| | 7) खाली प्लॉट नं. ई2—09 से ई2—16, खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 16.00 लाख | |
| | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढ्रंगरगढ़ जिला | Rs. 0.16 लाख | |
| | बीकानेर (राजस्थान) श्री पुरुर्षोत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 12000वर्ग फुट | Rs.0.20 लाख | |
| | 8) खाली प्लॉट नं. डी3—17 से डी3—20 खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 15.00 लाख | y . |
| | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढूंगरगढ़ जिला बीकानर (राजस्थान) श्री पुरुषोत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 9600 वर्ग फुट | Rs.1.50 लाख | |
| | बीकानेर (राजस्थान) श्री पुरुषौँत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 9600 वर्ग फुट | Rs.0.20 লাভা | l' |
| | 9) खाली प्लॉट नं. डी1—13 से डी1—17 खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 12.00 लाख | |
| | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढ्रंगरगढ जिला | Rs. 1.20 लाख | |
| | बीकानेर (राजस्थान) श्री पुरुषौँत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 9000 वर्ग फुट | Rs.0.20 लाख | |
| | 10) खाली प्लॉट नं. डी2—07 से डी2—10 खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 15.00 लाख | |
| | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढूंगरगढ़ जिला | Rs. 1.50 लाख | |
| | बीकानेर (राजस्थान) श्री पुरुषौँत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 11200 वर्ग फुट | Rs.0.20 लाख | |
| | 11) खाली प्लॉट नं. डी2—0 से डी2—04 खसरा नं. 1031 / 566, 1060 / 568, | Rs. 15.00 लाख | |
| | 1061 / 568, 567, 804, 805 कृष्णा एन्क्लेव जेटासर, श्री ढ्रंगरगढ़ जिला | Rs. 1.50 लाख | |
| | बीकानेर (राजस्थान) श्री पुरुर्षोत्तम सोनी के नाम पर, भूमि का क्षेत्र : 11200 वर्ग फुट | Rs.0.20 लाख | |

संपत्ति की ऑन-साइट जांच की तिथि व समय - संपत्ति नं. 1 से 3 (19.09.2020 व संपत्ति नं. 4 से 11 (21.09.2020)

सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच

ई-नीलामी की तिथि व समय 12.10.2020 समय सुबह 11.00 से दोपहर 12.00 (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) भागीदारी के अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेज, पैन कार्ड, ईएमडी प्रमाण आदि 07.10.2020 को शाम 4.00 बजे तक या पहले और आरटीजीएस/एनईएफटी जमा किए करें

A/c No: 33108475877, IFSC: SBIN0004109, बैंक : स्ट्रैस्ड एस्टेट्स मैंनेज़मेट शाखा — I, नई दिल्ली पता : 12वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, 1 टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली में देय राष्ट्रीयकृत अधिसूचित बैंक,

ई-नीलामी की नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं :

 ई—नीलामी "जहां है जैसी है" और "जो है जहां है" के आधार पर की जा रही है और "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि. (हैल्प लाइन नं. 0124-4302020 से 24, श्री विनोद मोबाइल नं. 9813887931, ई-मेल support@bankauctions.com) के माध्यम से वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com द्वारा की जाएगी। ऑनलाइन बोली फॉर्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य शर्तों और नियमों सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध हैं।

2. प्राधिकृत अधिकारी के बेहतर ज्ञान व सूचना के, संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी संपत्तियों के शीर्षक, और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / देयों के संबंध में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन नहीं बनाया गया है और बैंक की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधि गठित करने का अधिकारी है। संपत्ति बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूतित ऋणदाता किसी तीसरी पार्टी के दावों / अधिकारों / ऋणों के लिए किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा। 3. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री विचार के भाग के लिए मानी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति पर तुरंत बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा कराना होगा और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15 दिनों तक या पहले या प्राधिकृत अधिकारी के विवरण पर स्वयं लिखित में सहमति पर ऐसे विस्तारित अवधि के भीतर जमा करानी होंगी। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में असफल होने पर, पूरी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को दोबारा बेचा जाएगा और असफल बोलीदाता

4. बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों का विषय होगा। 5. बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया वेबपार्टल में दिए लिंक का संदर्भ लें : https://www.sbi.co.in,/portal/web/home and https://www.bankeauctions.com

दिनांकः 03.09.2020 स्थानः नई दिल्ली

www.readwhere.com

कम्पनी की भूमि

स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा नहीं कर पाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया